



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5—अगस्त 11, 2006 (श्रावण 14, 1928)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5—AUGUST 11, 2006 (SRAVANA 14, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची	
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के और मंत्रालयों उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ सं. 675
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	697
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	9
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	903
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों	*
(जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ सं. 192
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	35
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	318
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	54
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	*
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*

भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों
*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	Page No. 675	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	Page No. *
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	697	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	9	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1921
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	903	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	357
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3189
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	545
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
 [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2006

सं. के-11022/9/2004-आर.सी.(खण्ड-II)--राष्ट्रपति, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इसकी अवधि एक वर्ष के लिए दिनांक 31.8.2007 तक बढ़ाते हैं।

राहुल सरीन

अपर सचिव

2. इन सदस्यों का कार्यकाल परिषद् के शेष कार्यकाल अर्थात् अक्टूबर, 2008 तक होगा।

आदेश

आदेश है कि संकल्प को जन साधारण की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश है कि इस संकल्प की एक प्रति तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को भी भेजी जाए।

केशव देसिराजू

संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

यूनेस्को एकक

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2006

संकल्प

सं. 27-25/2001-यू.यू.--अरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के अध्याय III की धारा 21 की उपधारा (1) और (2) के अनुसार और अरोविले अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् को गठित करने संबंधी दिनांक 27.10.2004 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में भारत सरकार डॉ. ए. टी. अरियारत्न और प्रोफेसर डायना इक के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्य नियुक्त करती है :

- (1) डॉ. विशाखा एन. देसाई
अध्यक्ष
एशिया सोसायटी
725, पार्क एवेन्यू
न्यू यार्क, एन.वाई.-10021-5088
यू.एस.ए.
- (2) प्रोफेसर माइकल मरफी
पी एम बी 247
1001 ब्रिजवे
सोसालिटो
सी. ए. 94965
यू. एस.ए.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 जून 2006

संकल्प

सं. 10-3/96-आई.एम.वाई./आर.एम.के.--राष्ट्रीय महिला कोष के नियम एवं विनियमन के नियम 9(1) का अनुसरण करते हुए, भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय महिला कोष के शासी निकाय के सदस्य के रूप में एक वर्ष हेतु नामित करती है :--

- | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|
| 1. सचिव प्रभारी | के स्थान पर | सचिव |
| महिला एवं बाल विकास | | गोवा सरकार |
| छत्तीसगढ़ सरकार | | समाज कल्याण विभाग |
| पुराना नर्स होस्टल | | सचिवालय सौध |
| डी. के. एस. भवन | | सी.एम.सी. परिसर |
| रायपुर-492001 | | (पुराना परिसर) |
| | | पणजी-402001 |
| 2. सचिव | के स्थान पर | आयुक्त-सह-सचिव |
| समाज कल्याण विभाग प्रभारी | | सिक्किम सरकार |
| मणिपुर सरकार | | समाज कल्याण विभाग |
| खुमन पार्क | | (महिला एवं बाल विकास |
| इम्फाल-795001 | | प्रभाग) |
| | | निचला सचिवालय |
| | | गंगटोक-737101 |

आदेश

शहरी विकास मंत्रालय

निम्नलिखित को संकल्प की एक-एक प्रति भेजने का आदेश दिया जाता है:--

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 जुलाई 2006

1. मंत्रिमण्डल सचिव, भारत सरकार
2. प्रधान सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय
3. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
4. सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग, नई दिल्ली)
5. अपर सचिव, बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, जीवनदीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
6. कोष के शासी निकाय के सभी सदस्य
7. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास के निजी सचिव
8. सचिव, महिला एवं बाल विकास के निजी सचिव
9. संयुक्त सचिव (पी.डी.डी.)
10. वित्तीय सलाहकार (महिला एवं बाल विकास)
11. कार्यकारी निदेशक (राष्ट्रीय महिला कोष)
12. रोकड़ अनुभाग

संकल्प

सं. ई 11015/1/99-हिन्दी--अन्य बातों के साथ-साथ शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय का नाम बदलकर आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) के अन्तर्गत भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा जारी दिनांक 1 जून, 2006 की अधिसूचना फाइल सं. 1/22/1/2006-मंत्रि. के परिणामतः, शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय (विगत में शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के रूप में ज्ञात) के लिए संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति के गठन से संबंधित दिनांक 19 मई, 2005 के इस मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प में जहाँ कहीं "शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन" शब्द आएँ हों, उनके स्थान पर "आवास और शहरी गरीबी उपशमन" शब्द प्रतिस्थापित हेतु उक्त संकल्प में और संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना हेतु इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पारुल देबी दास
संयुक्त सचिव

अन्य शर्तें वही रहेंगी।

आदेश

पर्यटन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2006

सं. 8 (12)/2005-एमआरडी--राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद् का गठन दिनांक 16 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. 13 (28) 96-एमआरडी-पार्ट-4 द्वारा किया गया था। श्री सुमन दूबे को भी, तत्काल प्रभाव से उनकी वैयक्तिक हैसियत में रा.प.स.प. के एक सदस्य के रूप में मनोनीत करने का निर्णय लिया गया है।

अमिताभ कांत
संयुक्त सचिव

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम. राजामणि
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES &
PENSIONS

(DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND
PUBLIC GRIEVANCES)

RESOLUTION

New Delhi, the 24th July 2006

No. K-11022/9/2004-RC (Vol. II)—The President is pleased to extend the term of the second Administrative Reforms Commission by one year upto 31.8.2007 for submission of its Reports to the Government.

RAHUL SARIN
Additional Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER
EDUCATION)

UNESCO Unit

New Delhi, the 17th July 2006

RESOLUTION

No. 27-25/2001-UU—In terms of sub-sections (1) and (2) of Section 21 of Chapter III of the Auroville Foundation Act, 1988 and in continuation of Resolution of even number dated 27.10.2004 constituting the Auroville International Advisory Council, the Government of India hereby nominates the following persons as Members of the International Advisory Council in place of Dr. A. T. Ariyaratne and Prof. Diana Eck :

- (1) Dr. Vishakha N. Desai
President
Asia Society
725 Park Avenue
New York
NY 10021-5088
USA.
- (2) Prof. Michael Murphy
PMB 247
1001 Bridgeway
Sausalito
CA 94965
USA.

2. The terms of office of these Members will be for the remaining term of the Council i.e. upto October 2008.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that a copy of the Resolution may be sent to the Chief Secretary, Government of Tamil Nadu.

KESHAV DESIRAJU
Joint Secy.

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi-110 001, the 14th June 2006

RESOLUTION

No. 10-3/96-IMY/RMK—In pursuance of the provision of rule 9(I) of Rules and Regulations of Rashtriya Mahila Kosh, the Government of India nominates the following persons as members of the Governing Board of Rashtriya Mahila Kosh with immediate effect for one year :

1. Secretary, Government of Goa, Department of Social Welfare, Sectt. Annexe, CMC Complex (Old Campus) Panaji-402 001
Vice Secretary In charge of Women and Child Development Government of Chhaattisgarh, Old Nurses Hostel, Bind DKS Bhawan, Raipur-492 001.
2. Commissioner-Cum-Secretary Government of Sikkim Department of Social Welfare and (Women and Child Development Division) Lower Secretariat Gangtok-737 101.
Vice Secretary In charge of Social Welfare Department, Government of Manipur, Khuman Park, Imphal-795 001.

ORDER

Order that a copy of the resolution be communicated to :

1. Cabinet Secretary, Government of India.
2. Principal Secretary, Prime Minister's Office.
3. Chief Secretary, All States, UT Governments.
4. Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure, New Delhi).
5. Additional Secretary, Banking Division, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Bldg., Parliament Street, New Delhi.
6. All Members of the Governing Body of the Kosh.
7. PS to MOS, (Independent Charge), WCD
8. PS to Secretary, WCD.
9. JS (PDD).
10. FA (WCD).
11. ED (RMK).
12. Cash Section.

ORDER also that the resolution be published in the Gazette of India for general Information.

PARUL DEBIDAS
Joint Secy.

DEPARTMENT OF TOURISM

New Delhi-110001, the 28th June 2006

No. 8(12)/2005-MRD—The National Tourism Advisory Council (NTAC) had been constituted vide Notification No. 13(28)/96-MRD-Pt.IV dated 16th February, 2006. It has been decided to also nominate Shri Suman Dubey as a member of NTAC, in his individual capacity, with immediate effect.

AMITABH KANT
Joint Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi-110011, the 21st July 2006

RESOLUTION

No. E-11015/1/99-Hindi—Consequent upon Notification F. No. 1/22/1/2006-Cab. dated 1st June, 2006 by the President of India under clause (3) of article 77 of the Constitution regarding amendment to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 to enter-alia change the name of the Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation to Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, it has been decided to further amend this Ministry's Resolution of even No. Dated 19th May, 2005 regarding constitution of Joint Hindi Salahakar Samiti for Ministry of Urban Development and Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (formerly known as Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation) to substitute the words "Housing and Urban Poverty Alleviation" for the

words "Urban Employment & Poverty Alleviation" wherever these words appear in the said resolution.

The other terms and conditions will remain same.

Order

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Planning Commission, Comptroller & Auditor General of India, Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., Committee of Parliament of Official Language, all the Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. RAJAMANI
Joint Secy.